

(क) “डिमटेरियलाइजेशन” शब्द से आप क्या समझते हैं? डिमैट खातों ने शेयरों को रखने और व्यापार करने की प्रक्रिया को कैसे आसान बना दिया है?

2. (क) “जमा खाता एक बैंक खाता है जिसे एक वित्तीय संस्थान द्वारा बनाए रखा जाता है जिसमें ग्राहक पैसे जमा और निकाल सकता है”। इस कथन के संदर्भ में, बचत खाते और चालू खाते को उदाहरणों के साथ परिभाषित कीजिए।

या

(ख) “बंधक गृह ऋण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।” उपरोक्त कथन के आलोक में, बंधक का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। दृष्टिबंधक, बंधक और प्रतिज्ञा के बीच अंतर कीजिए।

3. किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

(क) अल्पकालिक पूंजीगत लाभ

(ख) संपत्ति बीमा

(ग) किसान विकास पत्र

(घ) एफपीओ

(2000)

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3877

J

Unique Paper Code : 2416000002

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : **Common Prog Group (UGCF)**

Semester : II/IV/VI

Duration : 1 Hours

Maximum Marks : 30

### Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **all** questions.
3. **All** questions carry equal marks
4. Answers may be written either in **English or Hindi**; but the same medium should be used throughout the paper.

### छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

P.T.O.

3877

2

2. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
  3. सभी प्रश्न के अंक समान हैं।
  4. इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।
1. (a) "Financial planning involves a thorough evaluation of one's money situation (income, spending, debt, and saving) and expectations for the future". In the light of this statement, explain the procedure for financial planning.

OR

- (b) What do you understand by the term "Dematerialization"? How have DEMAT accounts eased the process of holding and trading shares?
2. (a) "A deposit account is a bank account maintained by a financial institution in which a customer can deposit and withdraw money". In the context of this statement, define saving account and current account with examples.

3877

3

OR

- (b) "A mortgage is critically important part of home loans." In light of the above statement, explain the meaning and importance of mortgage. Distinguish between Hypothecation, mortgage, and pledge.
3. Write a short note on ANY TWO:
  - (a) Short Term Capital Gain
  - (b) Property Insurance
  - (c) Kisan Vikas Patra
  - (d) FPO
1. (क) "वित्तीय नियोजन में किसी की धन स्थिति (आय, व्यय, ऋण और बचत) और भविष्य की अपेक्षाओं का गहन मूल्यांकन शामिल है।" इस कथन के आलोक में, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।

या

P.T.O.